

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 6350

L

Unique Paper Code : 2414001204

Name of the Paper : COMPUTERIZED ACCOUNTING SYSTEM

Name of the Course : **COMMON GROUP PAPER (GE) UGCF**

Semester : II

Duration : 2 Hours

Maximum Marks : 60

समय : 2 घण्टे

पूर्णांक : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **any 3** questions out of **5**.
3. Simple Calculator is Allowed.
4. **All** questions carry equal marks.
5. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए ।
2. 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें ।
3. साधारण कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है ।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

P.T.O.

1. The utility of accounting information depends entirely on its relevance to its users and the principles followed during its preparation. Identify the various users of accounting information and explain the fundamental accounting principles that govern the recording of financial transactions.
2. Write Short Notes on the following :
 - (a) Accounting Equation
 - (b) Computerised vs Manual Accounting Systems
 - (c) Types of Vouchers
 - (d) CGST, SGST & IGST
3. Pass the journal entries for the following transactions :

Saksham is a businessman dealing in electronics. From the following transactions, pass journal entries for the month of January, 2026.

- 1 Commenced business with the following :

Cash	6,00,000
Goods	8,00,000
Land & Building	4,00,000
- 2 Purchased machinery worth Rs. 2,00,000 and paid Rs. 2000 for its installation.
- 3 Cash deposited into Current account 2,00,000
- 4 Purchased goods from Sachin worth Rs. 10,000 and payment made through RTGS
- 5 Sold goods worth Rs. 1,00,000 at a trade discount of 10%
- 6 Sold Land of book value Rs.1,50,000 for Rs. 2,00,000

- 7 Goods worth Rs. 20,000 were distributed as free samples for sales promotion
 - 8 The proprietor bought a car worth Rs. 1,00,000 for his personal use.
 - 9 A debtor from whom Rs. 50,000 was due , paid only half and rest was declared bad debts
 - 10 Paid Salaries Rs.5000, Rent Rs.2500 and Electricity bill Rs. 8000 by cheque
4. From the following balances extracted from the books of Mr. Raj, prepare a Trial Balance as on 31st Mar, 2026.

Account Title	Amount (₹)
Capital	1,50,000
Opening Stock	30,000
Purchases	85,000
Sales	1,30,000
Return Inwards	5,000
Return Outwards	4,000
Wages	12,000
Machinery	80,000
Bank Loan	40,000
Cash at Bank	25,000
Sundry Debtors	60,000
Sundry Creditors	22,000
Discount Allowed	3,000
Discount Received	4,000
Bills Receivable	15,000
Bills Payable	10,000
Rent	15,000
Insurance	10,000
Drawings	20,000

5. The trial balance of Mr.X for the year ended 31st December, 2025 is given below. Prepare his Trading and Profit and Loss Account for the year ended 31st December, 2025 :

Particulars	Debit (Rs.)	Credit (Rs.)
Furniture	640	
Building	7,500	
Machinery	6,250	
Capital		12,500
Bad debts	125	
Bad debts reserve		200
Debtors and Creditors	3,800	2,500
Stock (1-1-2025)	3,460	
Purchases and Sales	5,475	15,450
Bank overdraft		2,850
Sales Returns and Purchase Returns	200	125
Advertisement	450	
Interest	118	
Cash	650	
Commission		375
Tax and Insurance (Indirect)	1250	
General expenses	782	
Salary	3,300	
Total	<u>34,000</u>	<u>34,000</u>

Adjustments :

- (i) Stock on 31st December, 2025 was valued at Rs. 3,250.
- (ii) Depreciate building at 5%, furniture at 10% and machinery at 20%.

- (iii) Interest Rs. 85 is payable on bank overdraft. Salary Rs. 300 and tax Rs. 120 are outstanding.
- (iv) Insurance prepaid is Rs. 100 and one-third of the commission is received in advance.
- (v) Furniture purchased in January 2001 worth Rs. 100 is included in purchases.
- (vi) Write off Rs. 100 as further bad debts and reserve for doubtful debts is to be made equal to 5% on debtors.

1. लेखांकन सूचना की उपयोगिता पूरी तरह से इसके उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी प्रासंगिकता और इसे तैयार करने के दौरान अपनाए गए सिद्धांतों पर निर्भर करती है। लेखांकन सूचना के विभिन्न उपयोगकर्ताओं की पहचान कीजिए और वित्तीय लेन-देन के अभिलेखन को नियंत्रित करने वाले मूलभूत लेखांकन सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।

2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (क) लेखांकन समीकरण
- (ख) कम्प्यूटरीकृत बनाम मैनुअल लेखांकन प्रणाली
- (ग) वाउचर के प्रकार
- (घ) सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी

3. निम्नलिखित लेन-देन के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ लिखें।

सक्षम इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करने वाला एक व्यापारी है। निम्नलिखित लेन-देनों से जनवरी 2026 माह के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ पारित कीजिए।

1. निम्नलिखित के साथ व्यापार शुरू किया :

नकद	6,00,000
माल	8,00,000
भूमि और भवन	4,00,000

2. 2,00,000 रुपये की मशीनरी खरीदी और उसके स्थापना के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया।

3. चालू खाते में नकद जमा किया : 2,00,000

4. सचिन से 10,000 रुपये का माल खरीदा और भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया।
 5. 1,00,000 रुपये का माल 10% व्यापार छूट पर बेचा।
 6. 1,50,000 रुपये के बही मूल्य की भूमि 2,00,000 रुपये में बेची।
 7. 20,000 रुपये का माल बिक्री प्रोत्साहन के लिए मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया गया।
 8. मालिक ने 20,000 रुपये की कार खरीदी। 1,00,000 रुपये निजी उपयोग के लिए।
 9. एक देनदार जिससे 50,000 रुपये बकाया थे, उसने केवल आधा भुगतान किया और शेष राशि को अस्वीकृत ऋण घोषित कर दिया गया।
 10. वेतन 5000 रुपये, किराया 2500 रुपये और बिजली बिल 8000 रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया गया।
4. श्री राज की बहियों से निकाले गए निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च, 2026 को ट्रायल बैलेंस तैयार कीजिए।

खाता शीर्षक	Amount (₹)
पूंजी	1,50,000
प्रारंभिक स्टॉक	30,000
खरीद	85,000
बिक्री	1,30,000
आवक वापसी	5,000
जावक वापसी	4,000
मजदूरी	12,000
मशीनरी	80,000
बैंक ऋण	40,000
बैंक में नकदी	25,000
विविध देनदार	60,000
विविध लेनदार	22,000
दी गई छूट	3,000
प्राप्त छूट	4,000
प्राप्य बिल	15,000
देय बिल	10,000
किराया	15,000
बीमा	10,000
आहरण	20,000

5. श्री एक्स का 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का ट्रायल बैलेंस नीचे दिया गया है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार कीजिए :

विवरण	Debit (Rs.)	Credit (Rs.)
फर्नीचर	640	
भवन	7,500	
मशीनरी	6,250	
पूंजी		12,500
अभावित ऋण	125	
अभावित ऋण आरक्षित निधि		200
देनदार और लेनदार	3,800	2,500
स्टॉक (1-1-2025)	3,460	
खरीद और बिक्री	5,475	15,450
बैंक ओवरड्राफ्ट		2,850
बिक्री वापसी और खरीद वापसी	200	125
विज्ञापन	450	
ब्याज	118	
नकद	650	
कमीशन		375
कर और बीमा (अप्रत्यक्ष)	1250	
सामान्य व्यय	782	
वेतन	3,300	
कुल	34,000	34,000

समायोजन :

- (i) 31 दिसंबर, 2025 को स्टॉक का मूल्य 3,250 रुपये था।
- (ii) भवन पर 5%, फर्नीचर पर 10% और मशीनरी पर 20% मूल्यहास लगाएं।
- (iii) बैंक ओवरड्राफ्ट पर 85 रुपये ब्याज देय है। 300 रुपये वेतन और 120 रुपये कर बकाया हैं।
- (iv) 100 रुपये का बीमा अग्रिम भुगतान है और कमीशन का एक तिहाई हिस्सा अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ है।
- (v) जनवरी 2001 में 100 रुपये मूल्य का खरीदा गया फर्नीचर खरीद में शामिल है।
- (vi) 100 रुपये को अतिरिक्त अशोध्य ऋण के रूप में अपलिखित कीजिए और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि देनदारों पर 5% के बराबर बनाएं।